

**Bachelor of Arts (B.A.) Examination: May – 2023**  
**Distance Education**

Day & Date	Semester	Subject Name	Time	Code	Marks
Saturday 20-05-2023	IV (Fresh/ Repeater)	D.C. Hindi – Adhunik Padya: Chhayavadottar	11:00 AM To 01:30 PM	445703	75

सूचनाएँ:— सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्र.1 निम्नलिखित सन्दर्भों में से किन्हीं दो की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 20

- अ) उस पुण्यभूमि पर आज तपी! रे, आन पड़ा संकट कराल  
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डंस रहे चतुर्दिक विविध व्याल  
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
- आ) रांपी की मूठ को हाथ में संभालना  
मुश्किल हो जाता है  
आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है  
मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे – सा  
काम पर आने से बार – बार इनकार करता है ....
- इ) कहाँ तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए,  
कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
- ई) उसके ही भावों की गोदी में  
छिन भर को भूल, कठिन जीवन को  
उसके ही सपनों के लोक चली जाती हूँ।  
बच्ची बन कर के सो जाती हूँ।

प्र.2 'गीत फरोश' कविता का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। 20

**अथवा**

'दिवंगत पिता के लिए' कविता में एक तरफ पिता के प्रति लेखक की श्रद्धा और संवेदना की तो दूसरी ओर समाज की कृतघ्नता और संवेदनशून्यता के प्रति व्यंग्य की सार्थक अभिव्यक्ति हुई है।— स्पष्ट कीजिए।

प्र.3 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो उत्तर लिखिए। 20

- अ) 'जो बीत गई सो बात गई' कविता के भाव – सौन्दर्य पर प्रकाश डालिए।
- आ) 'वक्त' कविता में आज के यथार्थ का वास्तविक चित्रण हुआ है।' स्पष्ट कीजिए।
- इ) 'प्यारा हिंदुस्तान' कविता में सन्देश को रेखांकित कीजिए।
- ई) 'अकाल और उसके बाद' कविता में चित्रित मार्मिक दुर्दशा का वर्णन कीजिए।

**प्र.4 निर्देशानुसार उत्तर लिखिए।**

**अ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए।**

**05**

- 1) दिनकर द्वारा हिमालय के लिए प्रयुक्त किन्हीं दो विशेषणों के नाम बताइए।
- 2) जीवन के दुखद अतीत को भूलकर, नये उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा किस कविता में मिलती है?
- 3) नागार्जुन द्वारा रचित किन्हीं दो काव्य – कृतियों के नाम बताइए।
- 4) गुंडे क्या पहन कर जै-जैकार करा रहे हैं?
- 5) 'गीतफरोश' का क्या अर्थ है?

**आ) कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए।**

**05**

- 1) धूमिल का पूरा नाम सुदामा पाण्डेय है।
- 2) कमीज नहो तो तौलिये से पेट ढंक लेने की बात कवि करता है।
- 3) 'दिवंगत पिता के लिए' कविता में दो खंड हैं।
- 4) ड्राइंगरूम में बैठे कर बुद्धिजीवी ढपली बजाते हैं।
- 5) दिनकर का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है।

**इ) जोड़े मिलाइए।**

**05**

- | अ                         | ब                            |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) हिरवंशराय बच्चन।       | अ) एक सूनी नाव।              |
| 2) भवानी प्रसाद मिश्र।    | ब) गाँधी पंचशती।             |
| 3) दुष्यंत कुमार।         | क) सात भाइयों के बीच चंपा।   |
| 4) सर्वेश्वरदयाल सक्सेना। | ड) एक कंठ विषपायी।           |
| 5) कात्यायनी।             | इ) क्या भूलूँ क्या याद करूँ। |